

**भारत निर्वाचन आयोग**  
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 579/प्रिंटिंग/2015/कम्प्यूनिकेशन

तारीख 3 जून, 2016

सेवा में,

<b>1</b>	मैसर्स सोना प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड एफ 86/1, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020	<b>2</b>	मैसर्स आई जी प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड 104, डी एस आई डी सी कॉम्प्लेक्स ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली - 110020
<b>3</b>	मैसर्स होलीफेथ इंटरनेशनल (प्राइवेट) लिमिटेड, गुलाब भवन, 6, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-02	<b>4</b>	मैसर्स जनरल स्ट्रीट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, सी-3/317, तीसरा तल, प्लॉट सं. 72, मिलन विहार, इंद्रप्रस्था एक्सटेंशन, दिल्ली-92
<b>5</b>	मैसर्स रॉयल प्रेस, 1799, दूसरा तल, परसादी गली, कोटला मुबारकपुर, डी-57 के सामने, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-1, नई दिल्ली - 3	<b>6</b>	मैसर्स शाक्यम इंडिया इंटरप्राइजेज, प्लॉट नं. 170, भू-तल, पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली

विषय :- 1500 स्वीप ब्रॉशरों एवं ब्रेल ब्रॉशरों के 2600 आवरण पृष्ठों के मुद्रण के संबंध में  
महोदय/महोदया,

1500 स्वीप ब्रॉशरों एवं ब्रेल ब्रॉशरों के 2600 आवरण पृष्ठों के मुद्रण के लिए, आयोग के पैनल में शामिल  
प्रिंटर से सीलबंद निविदाएं (अनुबंध 'क' के अनुसार) आमंत्रित की जाती हैं। कार्य का विनिर्देशन निम्नलिखित है :-

**ब्रॉशर का ब्योरा**

क्र. सं.	ब्रॉशर का नाम	प्रतियों की सं.	पृष्ठों कुल संख्या
<b>1</b>	वोट कैसे करें (सर्विस वोटर्स के लिए गाइड)	<b>200</b>	<b>8</b>
<b>2</b>	सर्विसवोटर्स के लिए पंजीकरण एवं मतदान प्रक्रिया जानकारी सहायता पुस्तिका	<b>200</b>	<b>8</b>
<b>3</b>	स्वीव ब्रॉशर (हिन्दी)	<b>200</b>	<b>16</b>
<b>4</b>	स्वीव ब्रॉशर (अंग्रेजी)	<b>200</b>	<b>16</b>
<b>5</b>	प्रवासी भारतीय मतदाताओं (के लिए पंजीकरण)	<b>200</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	मैं कैसे पंजीकरण कराऊं और मत डालूं साधारण मतदाताओं के लिए मार्गदर्शक	<b>300</b>	<b>8</b>
<b>7</b>	मतदाताओं के लिए जानकारी पुस्तिका	<b>200</b>	<b>8</b>
	कुल	<b>1500</b>	

मुद्रण	-	सभी चार रंग
कागज	-	<b>170</b> जी एस एम मैट
बाइंडिंग -		सेंटर स्टेपल
वार्निश	-	सभी पृष्ठों पर
मात्रा/पृष्ठ	-	उपर्युक्त सारणी के अनुसार

### **ब्रेल ब्रॉशर के आवरण पृष्ठ के लिए**

आकार	-	लंबाई <b>29</b> सेमी, चौड़ाई <b>32</b> सेमी
मुद्रण	-	<b>4</b> रंग (बहुरंगी)
कागज	-	<b>300</b> जी एस एम मैट
वार्निश	-	मैट लैमिनेशन

बाइंडिंग - चयनित एजेंसी को भारत निर्वाचन आयोग से पहले मुद्रित ब्रेल ब्रॉशर को ले जाना होगा और आवरण पृष्ठ (सेंटर स्टेपल) के साथ बांधना होगा और बाइंडिंग के बाद भारत निर्वाचन आयोग को सुपुर्द करना होगा।

मात्रा - **1800** प्रतियां (हिन्दी) और **800** प्रतियां (अंग्रेजी)

**2.** उपर्युक्त विनिर्देशनों में किसी परिवर्तन की स्थिति में, भुगतान अनुपात आधार पर किया जाएगा। इच्छुक फर्म सीलबंद निविदा को अधोहस्ताक्षरी को संबोधित करके तारीख **13** जून, **2016** (सोमवार) तक दोपहर **12.00** बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। सीलबंद निविदाओं को उसी तारीख को अपराह्न **2.45** बजे कमरा सं. **308** में खोला जाएगा। आवश्यक निबंधन एवं शर्तें इसके साथ संलग्न हैं। संलग्न निबंधनों एवं शर्तों को पूरा नहीं करने वाली निविदाओं को सरसरी तौर पर अस्वीकार किया जाएगा। कोट की गई दरों में सभी कर सम्मिलित होने चाहिए।

ह/-

(एस. के. दास)

अवर सचिव

दूरभाष : **011-23052082**

ईमेल : [sumands34@gmail.com](mailto:sumands34@gmail.com)

## निबंधन एवं शर्ते

1. विनिर्देशनों के अनुरूप कागज का मूल्य निविदा के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।
2. कार्य आबंटन के बाद, फर्म को सर्वप्रथम अनुमोदन के लिए प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि यह पाया जाता है कि कार्य अपेक्षित विनिर्देशों के अनुसार नहीं किया जा रहा है और या यदि निबंधनों एवं शर्तों को पूरा नहीं किया गया है तो आयोग को सौंपे गए कार्य को रद्द करने और फर्म पर शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
3. आयोग, फर्म को कोई अग्रिम भुगतान नहीं करेगा। फर्म को संपूर्ण कार्य अपनी लागत से करना होगा और भुगतान कार्य को संतोषजनक ढंग से पूरा करने तथा इस संबंध में बिल को प्रस्तुत करने के बाद ही किया जाएगा।
4. कार्य पूरा करने के लिए समय, प्रमाण के अनुमोदन की तारीख से ठीक 5 दिवस है।
5. आयोग आदेश को रद्द कर सकता है, यदि अपेक्षित मदों का आपूर्ति समय पर नहीं की जाती है या आयोग द्वारा परिकल्पित विनिर्देशनों को पूरा किया जाता है।
6. आयोग को किसी या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा। आयोग कार्य आदेश देने से पूर्व निबंधनों एवं शर्तों को परिवर्तित भी कर सकता है।

ह/-

(एस. के. दास)

अवर सचिव

वित्तीय बोली

क्र. सं.	कार्य	मूल्य (करों सहित)
1	कुल 1500 स्वीप ब्रॉशरों का मुद्रण (7 प्रकार के ब्रॉशर)	
2	ब्रेल ब्रॉशरों के 2600 आवरण पृष्ठों (1800 अंग्रेजी एवं 800 हिंदी) का मुद्रण और पहले ही मुद्रित ब्रॉशरों के साथ स्टेपल बाइंडिंग)	
3	दोनों कार्यों का कूल मूल्य	

उपर्युक्त विनिर्देशनों में किसी परिवर्तन की स्थिति में, भुगतान अनुपात आधार पर किया जाएगा।

हस्ताक्षर :  
नाम :  
मोबाइल नं. :